



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स 91]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 91]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का.आ. 101(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग स 9 के 232 600 कि मी से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 13 के 13 600 कि मी पर मिलने वाले सोलापुर बाइपास और राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 13 के 13 600 कि मी से 30.300 कि मी. तक के भूखण्ड (हातुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा सेक्शन) के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका सक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकता है।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, मरणा 5, निम्न प्रशासनिक भवन, जिला कलक्टरी सालापुर, महाराष्ट्र, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके अधीन अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किमी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-स्वामी और अन्य बड़े सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के कि.मी. 232.600 से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के कि.मी. 13.600 पर मिलने वाले सोलापूर घाटपास और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के कि.मी. 13.600 से कि.मी. 30.300 (हात्तूर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खण्ड) तक अर्जन की जानेवाली सरचना रहित अथवा सरचना सहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	गट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोलापूर	1 उत्तर सोलापूर	(1) कोडी	325 भाग	निजी	कृषि	100
				326 भाग	निजी	कृषि	550
				327 भाग	निजी	कृषि	470
				328 भाग	निजी	कृषि	2830
				329 भाग	निजी	कृषि	3760
				नाला	सरकारी	गैरकृषि	2370
				330 भाग	निजी	कृषि	46220
				334 भाग	निजी	कृषि	4390
				333 भाग	निजी	कृषि	1350
				332 भाग	निजी	कृषि	5140
				331 भाग	निजी	कृषि	20550
				352 भाग	निजी	कृषि	3290
				कुल			91020
			(2) हिरज	106 भाग	निजी	कृषि	8370
				107 भाग	निजी	कृषि	17900
				108 भाग	निजी	कृषि	3570
				109 भाग	निजी	कृषि	4260
				110 भाग	निजी	कृषि	15290
				111 भाग	निजी	कृषि	15270
				112 भाग	निजी	कृषि	15650
				117 भाग	सरकारी	वन जमीन	16360
				118 भाग	सरकारी	वन जमीन	10300
				119 भाग	सरकारी	वन जमीन	26000
				120 भाग	निजी	कृषि	57420
				127 भाग	निजी	कृषि	6470
				128 भाग	निजी	कृषि	2825
				206 भाग	निजी	कृषि	7900
				207 भाग	निजी	कृषि	8080
				126 भाग	निजी	कृषि	1420
				215 भाग	निजी	कृषि	22210
				214 भाग	निजी	कृषि	15950
				218 भाग	निजी	कृषि	10410
				219 भाग	निजी	कृषि	12130

1	2	3	4	5	6	7	8
				220 भाग	निजी	कृषि	4710
				221 भाग	निजी	कृषि	4190
				226 भाग	निजी	कृषि	9590
				227 भाग	निजी	कृषि	16260
				231 भाग	निजी	कृषि	8570
				232 भाग	निजी	कृषि	7720
				233 भाग	निजी	कृषि	15490
				93 भाग	निजी	कृषि	50
				95 भाग	निजी	कृषि	1850
				96 भाग	निजी	कृषि	3810
				कुल			350025
			(3) बेलाटी	144 भाग	निजी	कृषि	4650
				145 भाग	निजी	कृषि	23280
				146 भाग	निजी	कृषि	2130
				147 भाग	निजी	कृषि	17290
				134 क भाग	निजी	कृषि	14600
				149 भाग	निजी	कृषि	7270
				134 ब भाग	निजी	कृषि	2060
				150 भाग	निजी	कृषि	390
				133 भाग	निजी	कृषि	3960
				132 भाग	निजी	कृषि	9770
				नाला	सरकारी	गैरकृषि	2700
				136 भाग	निजी	कृषि	1380
				131 भाग	निजी	कृषि	34940
				125 भाग	निजी	कृषि	6630
				124 भाग	निजी	कृषि	8410
				121 भाग	निजी	कृषि	600
				123 भाग	निजी	कृषि	7590
				122 भाग	निजी	कृषि	7650
				74 भाग	सरकारी	गैरकृषि	5170
				11 भाग	सरकारी	गैरकृषि	1090
73 भाग	निजी	कृषि		3460			
72 भाग	निजी	कृषि		7450			
68 भाग	निजी	कृषि		2780			
67 भाग	निजी	कृषि		1260			
13 भाग	निजी	कृषि		60			
				14 भाग	निजी	कृषि	3940
				17 भाग	निजी	कृषि	360
				15 भाग	निजी	कृषि	8900
				16 भाग	निजी	कृषि	9520
			18 भाग	निजी	कृषि	1580	
			19 भाग	निजी	कृषि	5710	

1	2	3	4	5	6	7	8
				20 भाग	निजी	कृषि	5350
				22	निजी	कृषि	920
				26 भाग	निजी	कृषि	80
				23 भाग	निजी	कृषि	5600
				24 भाग	निजी	कृषि	5560
				29 भाग	निजी	कृषि	4240
				30 भाग	निजी	कृषि	270
				कुल			228900
			(4) कवटे	34 भाग	निजी	कृषि	170
				30 भाग	निजी	कृषि	1400
				29 भाग	निजी	कृषि	50
				31 भाग	निजी	कृषि	1780
				22 भाग	निजी	कृषि	4260
				19 भाग	निजी	कृषि	7810
				17 भाग	निजी	कृषि	3070
				16 भाग	निजी	कृषि	4520
				14 भाग	निजी	कृषि	18620
				15 भाग	निजी	कृषि	370
				13 भाग	निजी	कृषि	5000
				10 भाग	निजी	कृषि	3270
				9 भाग	निजी	कृषि	2360
				8 भाग	निजी	कृषि	1910
				7 भाग	निजी	कृषि	980
				162 भाग	निजी	कृषि	1060
				135 भाग	निजी	कृषि	3320
				137 भाग	निजी	कृषि	3950
				136 भाग	निजी	कृषि	3040
				138 भाग	निजी	कृषि	7690
				142 भाग	निजी	कृषि	840
				143 भाग	निजी	कृषि	4130
				144 भाग	निजी	कृषि	5420
				145 भाग	निजी	कृषि	2220
				155 भाग	निजी	कृषि	2450
				149 भाग	निजी	कृषि	8070
				153 भाग	निजी	कृषि	30
				152 भाग	निजी	कृषि	3660
				151 भाग	निजी	कृषि	8460
				221 भाग	निजी	कृषि	1970
				222 भाग	निजी	कृषि	11370
				223 भाग	निजी	कृषि	5330
				224 भाग	निजी	कृषि	4300
				111 भाग	निजी	कृषि	850

1	2	3	4	5	6	7	8
				225 भाग	निजी	कृषि	770
				110 भाग	निजी	कृषि	9070
				109 भाग	निजी	कृषि	4010
				108 भाग	निजी	कृषि	6020
				20 भाग	निजी	कृषि	570
				कुल			154170
			(5) डोणगोंव	72 भाग	निजी	कृषि	10530
				74 भाग	निजी	कृषि	6720
				75 भाग	निजी	कृषि	8130
				76 भाग	निजी	कृषि	4380
				77 भाग	सरकारी	कृषि	15470
				78 भाग	निजी	कृषि	8040
				105 भाग	निजी	कृषि	24240
				104 भाग	निजी	कृषि	7950
				100 भाग	निजी	कृषि	780
				101 भाग	निजी	कृषि	21720
				97 भाग	निजी	कृषि	580
				96 भाग	निजी	कृषि	4370
				95 भाग	निजी	कृषि	12080
				94 भाग	निजी	कृषि	340
				कुल			125330
			(6) भाटेवाडी	35 भाग	निजी	कृषि	7340
				36 भाग	निजी	कृषि	2110
				37 भाग	निजी	कृषि	5350
				38 भाग	निजी	कृषि	3280
				39 भाग	निजी	कृषि	16400
				1 भाग	सरकारी	गैरकृषि	350
				कुल			34830
			(7) नादूर	105 भाग	निजी	कृषि	4500
				104 भाग	निजी	कृषि	11910
				103 भाग	निजी	कृषि	16590
				102 भाग	निजी	कृषि	1330
				101 भाग	निजी	कृषि	4030
				120 भाग	निजी	कृषि	280
				121 भाग	निजी	कृषि	9760
				125 भाग	निजी	कृषि	13880
				126 भाग	निजी	कृषि	6610
				127 भाग	निजी	कृषि	7120
				128 भाग	निजी	कृषि	10840
				129 भाग	निजी	कृषि	2670
				130 भाग	निजी	कृषि	14620
				132 भाग	निजी	कृषि	30

1	2	3	4	5	6	7	8
				133 भाग	निजी	कृषि	2000
				137 भाग	निजी	कृषि	11300
				151 भाग	निजी	कृषि	16220
				152 भाग	निजी	कृषि	420
				156 भाग	निजी	कृषि	17660
				164 भाग	निजी	कृषि	13560
				163 भाग	निजी	कृषि	2620
				162 भाग	निजी	कृषि	2290
				160 भाग	निजी	कृषि	700
				कुल			170940
			(8) समशापूर	27 / 2 भाग	निजी	कृषि	4490
				27 / 1 भाग	निजी	कृषि	590
				28 भाग	निजी	कृषि	4510
				26 भाग	निजी	कृषि	4750
				29 भाग	निजी	कृषि	5670
				30 भाग	निजी	कृषि	4300
				31 भाग	निजी	कृषि	5810
				कुल			30120
		2 दक्षिण सोलापूर	(1) हातूर	90 भाग	निजी	कृषि	80
				79 भाग	निजी	कृषि	15830
				80 भाग	निजी	कृषि	50
				78 भाग	निजी	कृषि	80
				81 भाग	निजी	कृषि	5450
				82 भाग	निजी	कृषि	14560
				83 भाग	निजी	कृषि	5540
				75 भाग	निजी	कृषि	11760
				74 भाग	निजी	कृषि	11690
				69 भाग	निजी	कृषि	12220
				66 भाग	निजी	कृषि	1300
				68 भाग	निजी	कृषि	1750
				58 भाग	निजी	कृषि	3810
				59 भाग	निजी	कृषि	3690
				60 भाग	निजी	कृषि	5540
				61 भाग	निजी	कृषि	5100
				62 भाग	निजी	कृषि	7020
				43 भाग	निजी	कृषि	19190
				48 भाग	निजी	कृषि	520
				46 भाग	निजी	कृषि	8480
				45 भाग	निजी	कृषि	24250
				8 अ भाग	निजी	कृषि	12252
				8 ब भाग	निजी	कृषि	8670
				26 भाग	निजी	कृषि	3660

1	2	3	4	5	6	7	8
				19 भाग	निजी	कृषि	290
				20 भाग	निजी	कृषि	3320
				21 भाग	निजी	कृषि	8180
				25 भाग	निजी	कृषि	2952
				24 भाग	निजी	कृषि	2664
				23 भाग	निजी	कृषि	3132
				22 भाग	निजी	कृषि	2976
				526 भाग	निजी	कृषि	7032
				527 भाग	निजी	कृषि	6500
				520 भाग	निजी	कृषि	7992
				533 भाग	निजी	कृषि	430
				516 भाग	निजी	कृषि	228
				515 भाग	निजी	कृषि	8796
				532 भाग	निजी	कृषि	3070
				514 भाग	निजी	कृषि	3552
				513 भाग	निजी	कृषि	3660
				512 भाग	निजी	कृषि	1051
				511 भाग	निजी	कृषि	1044
				502 भाग	निजी	कृषि	240
				503 भाग	निजी	कृषि	1470
				507 भाग	निजी	कृषि	2964
				506 भाग	निजी	कृषि	3432
				505 भाग	निजी	कृषि	1692
				504 भाग	निजी	कृषि	22116
				मीना नदि	सरकारी	गैरकृषि	2340
				कुल			286644
			(2) बडकवाल	मीना नदि	सरकारी	गैरकृषि	3288
				बडकवाल गौवडाण	निजी	गैरकृषि	5988
				3 भाग	सरकारी	गैरकृषि	100
				2 भाग	निजी	कृषि	660
				1 भाग	निजी	कृषि	2730
				6 भाग	निजी	कृषि	4284
				5 भाग	निजी	कृषि	2520
				11 भाग	निजी	कृषि	350
				13 भाग	निजी	कृषि	3552
				15 भाग	निजी	कृषि	670
				16 भाग	निजी	कृषि	860
				25 भाग	निजी	कृषि	1120
				26 भाग	निजी	कृषि	2650
				27 अ भाग	निजी	कृषि	1920
				27 ब भाग	निजी	कृषि	7104

1	2	3	4	5	6	7	8
				45 भाग	निजी	कृषि	1200
				50 भाग	निजी	कृषि	6180
				51 भाग	निजी	कृषि	8028
				52 भाग	निजी	कृषि	10680
				56 भाग	निजी	कृषि	1644
				57 भाग	निजी	कृषि	2280
				58 भाग	निजी	कृषि	2436
				60 भाग	निजी	कृषि	2604
				61 भाग	निजी	कृषि	972
				62 भाग	निजी	कृषि	1104
				63 भाग	निजी	कृषि	1908
				66 भाग	निजी	कृषि	3732
				68 भाग	निजी	कृषि	1884
				67 भाग	निजी	कृषि	9612
				72 भाग	निजी	कृषि	3312
				74 भाग	निजी	कृषि	324
				75 भाग	निजी	कृषि	30
				71 भाग	निजी	कृषि	30
				कुल			95656
			(3) मद्रूप	958 भाग	निजी	कृषि	4092
				48 भाग	निजी	कृषि	13216
				45 भाग	निजी	कृषि	7087
				46 भाग	निजी	कृषि	7397
				47 भाग	निजी	कृषि	5114
				59 भाग	निजी	कृषि	12193
				58 भाग	निजी	कृषि	24637
				57 भाग	निजी	कृषि	10451
				56 भाग	निजी	कृषि	8118
				49 भाग	निजी	कृषि	10478
			(4) बसंव नगर	55 भाग	निजी	कृषि	11289
				कुल			114072
				23 अ भाग	सरकारी	गैरकृषि	10760
				23 ब भाग	सरकारी	गैरकृषि	15972
				24 भाग	निजी	कृषि	21216
				25 भाग	निजी	कृषि	4224
				32 भाग	निजी	कृषि	40
				30 भाग	निजी	कृषि	5790
				29 भाग	निजी	कृषि	11988
				35 अ भाग	निजी	कृषि	4920
				35 ब भाग	निजी	कृषि	2000
				36 भाग	निजी	कृषि	16140
				गाँवडाण	निजी	गैरकृषि	4668

1	2	3	4	5	6	7	8
				37 भाग	निजी	कृषि	2280
				77 भाग	निजी	कृषि	14280
				75 भाग	निजी	कृषि	1140
				76 भाग	निजी	कृषि	30
				41 भाग	निजी	कृषि	1872
				42 भाग	निजी	कृषि	1680
				43 भाग	निजी	कृषि	2100
				44 भाग	निजी	कृषि	2100
				45 भाग	निजी	कृषि	2604
				46 भाग	निजी	कृषि	3948
				47 अ भाग	निजी	कृषि	2740
				47 ब भाग	निजी	कृषि	2330
				48 भाग	निजी	गेरकृषि	4390
				49 भाग	निजी	कृषि	7956
				50 ब भाग	निजी	कृषि	13524
			(5) नादणी	कुल			160692
				1 भाग	निजी	कृषि	4400
				2 भाग	सरकारी	सरकृषि	650
				3 भाग	सरकारी	वन जमीन	26650
				4 भाग	निजी	कृषि	2060
				5 भाग	निजी	कृषि	9156
				6 भाग	निजी	कृषि	3588
				7 भाग	निजी	कृषि	2760
				8 भाग	निजी	कृषि	21252
				9 भाग	निजी	कृषि	6396
				10 भाग	निजी	कृषि	3740
				177 भाग	निजी	कृषि	9024
				178 भाग	निजी	कृषि	30
				179 भाग	निजी	कृषि	30
				176 भाग	निजी	कृषि	3768
				175 भाग	निजी	कृषि	3144
				173 भाग	निजी	कृषि	2676
				174 भाग	निजी	कृषि	1310
				172 भाग	निजी	कृषि	2076
				166 भाग	निजी	कृषि	480
				132 भाग	निजी	कृषि	30
				133 भाग	सरकारी	गेरकृषि	4128
				129 भाग	निजी	कृषि	42180
				124 भाग	सरकारी	गेरकृषि	930
				122 भाग	निजी	कृषि	1800
				123 भाग	निजी	कृषि	620
				कुल			152878
			(6) टाकली	162 भाग	निजी	कृषि	6888

1	2	3	4	5	6	7	8
				164 भाग	निजी	कृषि	9624
				165 भाग	निजी	कृषि	3320
				179 भाग	निजी	कृषि	1580
				181 भाग	निजी	कृषि	2150
				182 भाग	निजी	कृषि	1310
				183 भाग	निजी	कृषि	2180
				101 भाग	निजी	कृषि	2730
				100 भाग	निजी	कृषि	7800
				98 भाग	निजी	कृषि	30
				99 भाग	निजी	कृषि	7884
				59 भाग	निजी	कृषि	2529
				58 अ भाग	निजी	कृषि	5232
				58 ब भाग	निजी	कृषि	2610
				57 भाग	निजी	कृषि	10872
				54 भाग	निजी	कृषि	9036
				55 भाग	निजी	कृषि	30
				53 भाग	निजी	कृषि	900
				218 भाग	निजी	कृषि	340
				11 भाग	निजी	कृषि	1460
				15 भाग	निजी	कृषि	10188
				16 भाग	निजी	कृषि	2190
				18 भाग	निजी	कृषि	3730
				19 भाग	निजी	कृषि	2328
				14 भाग	निजी	कृषि	16248
				सडक	सरकारी	गैरकृषि	790
				52 भाग	निजी	कृषि	6372
				60 ब भाग	निजी	कृषि	4764
				102 भाग	निजी	कृषि	4692
				104/3 भाग	निजी	कृषि	4632
				105 भाग	निजी	कृषि	2232
				119 भाग	निजी	कृषि	2040
				120 भाग	निजी	कृषि	4068
				भीमा नदि	सरकारी	गैरकृषि	11810
				कुल			154589

[फा. सं. भारांप्रा/1/11013/भू.अ./01 एस/अधि./महा.]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2012

S.O. 101(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 13, on the stretch of land for Solapur bypass starting from Km 232 600 of N H-9 and meeting at Km 13.600 of N H-13 and from Km 13 600 to Km. 30.300 (Hattur-Maharashtra/Karnataka Border Section) in district Solapur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the afore said purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, No 5, District Administrative Building, District Collectorate Solapur, Maharashtra State, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for Solapur Bypass Starting from Km-232.600 of NH 9 and meeting at Km. 13.600 of NH-13 and from Km. 13.600 to Km. 30.300 (Hattur-Maharashtra/Karnataka Border Section) of the National Highway No. 13 in the State of Maharashtra.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Gat number	Type of land	Nature of land	Area (in squire metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.Solapur	1.North Solapur	(1) Kondi	325 Pt	Private	Agriculture	100
				326 Pt	Private	Agriculture	550
				327 Pt	Private	Agriculture	470
				328 Pt	Private	Agriculture	2830
				329 Pt	Private	Agriculture	3760
				Canal	Govt	Non Agriculture	2370
				330 Pt	Private	Agriculture	46220
				334 Pt	Private	Agriculture	4390
				333 Pt	Private	Agriculture	1350
				332 Pt	Private	Agriculture	5140
				331 Pt	Private	Agriculture	20550
				352 Pt	Private	Agriculture	3290
				Total			91020
			(2) Hiraj	106 Pt	Private	Agriculture	8370
				107 Pt	Private	Agriculture	17900
				108 Pt	Private	Agriculture	3570
				109 Pt	Private	Agriculture	4260
				110 Pt	Private	Agriculture	15290
				111 Pt	Private	Agriculture	15270
				112 Pt	Private	Agriculture	15650
				117 Pt	Govt	Forest Land	16360
				118 Pt	Govt	Forest Land	10300
				119 Pt	Govt	Forest Land	26000
				120 Pt	Private	Agriculture	57420
				127 Pt	Private	Agriculture	6470
				128 Pt	Private	Agriculture	2825
				106 Pt	Private	Agriculture	7900
				207 Pt	Private	Agriculture	8080
				126 Pt	Private	Agriculture	1420
				215 Pt	Private	Agriculture	22210
				214 Pt	Private	Agriculture	15950
				218 Pt	Private	Agriculture	10410
				219 Pt	Private	Agriculture	12130
				220 Pt	Private	Agriculture	4710
				221 Pt	Private	Agriculture	4190
				226 Pt	Private	Agriculture	9590
				227 Pt	Private	Agriculture	16260
				231 Pt	Private	Agriculture	8570
				232 Pt	Private	Agriculture	7720
				233 Pt	Private	Agriculture	15490
				93 Pt	Private	Agriculture	50
				95 Pt	Private	Agriculture	1850

1	2	3	4	5	6	7	8
				96 Pt	Private	Agriculture	3810
				Total			350025
			(3) Belati	144 Pt	Private	Agriculture	4650
				145 Pt	Private	Agriculture	23280
				146 Pt	Private	Agriculture	2430
				147 Pt	Private	Agriculture	17290
				134C Pt	Private	Agriculture	14600
				149 Pt	Private	Agriculture	7270
				134B Pt	Private	Agriculture	2060
				150 Pt	Private	Agriculture	390
				133 Pt	Private	Agriculture	3960
				132 Pt	Private	Agriculture	9770
				Canal	Govt	Non Agriculture	2700
				136 Pt	Private	Agriculture	1380
				131 Pt	Private	Agriculture	34940
				125 Pt	Private	Agriculture	6630
				124 Pt	Private	Agriculture	8410
				121 Pt	Private	Agriculture	600
				123 Pt	Private	Agriculture	7590
				122 Pt	Private	Agriculture	7650
				74 Pt	Govt	Non Agriculture	5170
				11 Pt	Govt	Non Agriculture	1090
				73 Pt	Private	Agriculture	3460
				72 Pt	Private	Agriculture	7450
				68 Pt	Private	Agriculture	2780
				67 Pt	Private	Agriculture	1260
				13 Pt	Private	Agriculture	60
				14 Pt	Private	Agriculture	3940
				17 Pt	Private	Agriculture	360
				15 Pt	Private	Agriculture	8900
				16 Pt	Private	Agriculture	9520
				18 Pt	Private	Agriculture	1580
				19 Pt	Private	Agriculture	5710
				20 Pt	Private	Agriculture	5350
				22	Private	Agriculture	920
				26 Pt	Private	Agriculture	80
				23 Pt	Private	Agriculture	5600
				24 Pt	Private	Agriculture	5560
				29 Pt	Private	Agriculture	4240
				30 Pt	Private	Agriculture	270
				Total			228900
			(4) Kavathe	34 Pt	Private	Agriculture	170
				30 Pt	Private	Agriculture	1400
				29 Pt	Private	Agriculture	50
				31 Pt	Private	Agriculture	1780

1	2	3	4	5	6	7	8
				22 Pt	Private	Agriculture	4260
				19 Pt	Private	Agriculture	7810
				17 Pt	Private	Agriculture	3070
				16 Pt	Private	Agriculture	4520
				14 Pt	Private	Agriculture	18620
				15 Pt	Private	Agriculture	370
				13 Pt	Private	Agriculture	5000
				10 Pt	Private	Agriculture	3270
				9 Pt	Private	Agriculture	2360
				8 Pt	Private	Agriculture	1910
				7 Pt	Private	Agriculture	980
				162 Pt	Private	Agriculture	1060
				135 Pt	Private	Agriculture	3320
				137 Pt	Private	Agriculture	3950
				136 Pt	Private	Agriculture	3040
				138 Pt	Private	Agriculture	7690
				142 Pt	Private	Agriculture	840
				143 Pt	Private	Agriculture	4130
				144 Pt	Private	Agriculture	5420
				145 Pt	Private	Agriculture	2220
				155 Pt	Private	Agriculture	2450
				149 Pt	Private	Agriculture	8070
				153 Pt	Private	Agriculture	30
				152 Pt	Private	Agriculture	3660
				151 Pt	Private	Agriculture	8460
				221 Pt	Private	Agriculture	1970
				222 Pt	Private	Agriculture	11370
				223 Pt	Private	Agriculture	5330
				224 Pt	Private	Agriculture	4300
				111 Pt	Private	Agriculture	850
				225 Pt	Private	Agriculture	770
				110 Pt	Private	Agriculture	9070
				109 Pt	Private	Agriculture	4010
				108 Pt	Private	Agriculture	6020
				20 Pt	Private	Agriculture	570
				Total			154170
			(5) Dongaon	72 Pt	Private	Agriculture	10530
				74 Pt	Private	Agriculture	6720
				75 Pt	Private	Agriculture	8130
				76 Pt	Private	Agriculture	4380
				77 Pt	Govt	Agriculture	15470
				78 Pt	Private	Agriculture	8040
				105 Pt	Private	Agriculture	24240
				104 Pt	Private	Agriculture	7950
				100 Pt	Private	Agriculture	780
				101 Pt	Private	Agriculture	21720
				97 Pt	Private	Agriculture	580
				96 Pt	Private	Agriculture	4370
				95 Pt	Private	Agriculture	12080
				94 Pt	Private	Agriculture	340
				Total			125330

1	2	3	4	5	6	7	8
			(6) Bhatewadi	35 Pt	Private	Agriculture	7340
				36 Pt	Private	Agriculture	2110
				37 Pt	Private	Agriculture	5350
				38 Pt	Private	Agriculture	3280
				39 Pt	Private	Agriculture	16400
				1 Pt	Govt	Non Agriculture	350
				Total			34830
			(7) Nandur	105 Pt	Private	Agriculture	4500
				104 Pt	Private	Agriculture	11910
				103 Pt	Private	Agriculture	16590
				102 Pt	Private	Agriculture	1330
				101 Pt	Private	Agriculture	4030
				120 Pt	Private	Agriculture	280
				121 Pt	Private	Agriculture	9760
				125 Pt	Private	Agriculture	13880
				126 Pt	Private	Agriculture	6610
				127 Pt	Private	Agriculture	7120
				128 Pt	Private	Agriculture	10840
				129 Pt	Private	Agriculture	2670
				130 Pt	Private	Agriculture	14620
				132 Pt	Private	Agriculture	30
				133 Pt	Private	Agriculture	2000
				137 Pt	Private	Agriculture	11300
				151 Pt	Private	Agriculture	16220
				152 Pt	Private	Agriculture	420
				156 Pt	Private	Agriculture	17660
				164 Pt	Private	Agriculture	13560
				163 Pt	Private	Agriculture	2620
				162 Pt	Private	Agriculture	2290
				160 Pt	Private	Agriculture	700
				Total			170940
			(8) Samshapur	27/2 Pt	Private	Agriculture	4490
				27/1 Pt	Private	Agriculture	590
				28 Pt	Private	Agriculture	4510
				26 Pt	Private	Agriculture	4750
				29 Pt	Private	Agriculture	5670
				30 Pt	Private	Agriculture	4300
				31 Pt	Private	Agriculture	5810
				Total			30120
		2.South Solapur	(1) Hattur	90 Pt	Private	Agriculture	80
				79 Pt	Private	Agriculture	15830
				80 Pt	Private	Agriculture	50
				78 Pt	Private	Agriculture	80
				81 Pt	Private	Agriculture	5450
				82 Pt	Private	Agriculture	14560
				83 Pt	Private	Agriculture	5540
				75 Pt	Private	Agriculture	11760
				74 Pt	Private	Agriculture	11690
				69 Pt	Private	Agriculture	12220
				66 Pt	Private	Agriculture	1300

1	2	3	4	5	6	7	8
				68 Pt	Private	Agriculture	1750
				58 Pt	Private	Agriculture	3810
				59 Pt	Private	Agriculture	3690
				60 Pt	Private	Agriculture	5540
				61 Pt	Private	Agriculture	5100
				62 Pt	Private	Agriculture	7020
				43 Pt	Private	Agriculture	19190
				48 Pt	Private	Agriculture	520
				46 Pt	Private	Agriculture	8480
				45 Pt	Private	Agriculture	24250
				8A Pt	Private	Agriculture	12252
				8B Pt	Private	Agriculture	8670
				26 Pt	Private	Agriculture	3660
				19 Pt	Private	Agriculture	290
				20 Pt	Private	Agriculture	3320
				21 Pt	Private	Agriculture	8180
				25 Pt	Private	Agriculture	2952
				24 Pt	Private	Agriculture	2664
				23 Pt	Private	Agriculture	3132
				22 Pt	Private	Agriculture	2976
				526 Pt	Private	Agriculture	7032
				527 Pt	Private	Agriculture	6500
				520 Pt	Private	Agriculture	7992
				533 Pt	Private	Agriculture	430
				516 Pt	Private	Agriculture	228
				515 Pt	Private	Agriculture	8796
				532 Pt	Private	Agriculture	3070
				514 Pt	Private	Agriculture	3552
				513 Pt	Private	Agriculture	3660
				512 Pt	Private	Agriculture	4080
				511 Pt	Private	Agriculture	1044
				502 Pt	Private	Agriculture	240
				503 Pt	Private	Agriculture	1470
				507 Pt	Private	Agriculture	2964
				506 Pt	Private	Agriculture	3432
				505 Pt	Private	Agriculture	1692
				504 Pt	Private	Agriculture	22116
				SEENA RIVER	Govt	Non Agriculture	2340
				Total			286644
			(2) Vadakbal	SEENA RIVER	Govt	Non Agriculture	3288
				Gaothan	Private	Non Agriculture	5988
				3 Pt	Govt	Non Agriculture	100
				2 Pt	Private	Agriculture	660
				1 Pt	Private	Agriculture	2730
				6 Pt	Private	Agriculture	4284
				5 Pt	Private	Agriculture	2520
				11 Pt	Private	Agriculture	250
				13 Pt	Private	Agriculture	3552

1	2	3	4	5	6	7	8
				15 Pt	Private	Agriculture	670
				16 Pt	Private	Agriculture	860
				25 Pt	Private	Agriculture	1120
				26 Pt	Private	Agriculture	2650
				27A Pt	Private	Agriculture	1920
				27B Pt	Private	Agriculture	7104
				45 Pt	Private	Agriculture	1200
				50 Pt	Private	Agriculture	6180
				51 Pt	Private	Agriculture	8028
				52 Pt	Private	Agriculture	10680
				56 Pt	Private	Agriculture	1644
				57 Pt	Private	Agriculture	2280
				58 Pt	Private	Agriculture	2436
				60 Pt	Private	Agriculture	2604
				61 Pt	Private	Agriculture	972
				62 Pt	Private	Agriculture	1104
				63 Pt	Private	Agriculture	1908
				66 Pt	Private	Agriculture	3732
				68 Pt	Private	Agriculture	1884
				67 Pt	Private	Agriculture	9612
				72 Pt	Private	Agriculture	3312
				74 Pt	Private	Agriculture	324
				75 Pt	Private	Agriculture	30
				71 Pt	Private	Agriculture	30
				Total			95656
			(3) Mandrup	958 Pt	Private	Agriculture	4092
				48 Pt	Private	Agriculture	13216
				45 Pt	Private	Agriculture	7087
				46 Pt	Private	Agriculture	7397
				47 Pt	Private	Agriculture	5114
				59 Pt	Private	Agriculture	12193
				58 Pt	Private	Agriculture	24637
				57 Pt	Private	Agriculture	10451
				56 Pt	Private	Agriculture	8118
				49 Pt	Private	Agriculture	10478
				55 Pt	Private	Agriculture	11289
				Total			114072
			(4) Basav Nagar	23A Pt	Govt	Non Agriculture	10760
				23B Pt	Govt	Non Agriculture	15972
				24 Pt	Private	Agriculture	21216
				25 Pt	Private	Agriculture	4224
				32 Pt	Private	Agriculture	40
				30 Pt	Private	Agriculture	5790
				29 Pt	Private	Agriculture	11988
				35A Pt	Private	Agriculture	4920
				35B Pt	Private	Agriculture	2000
				36 Pt	Private	Agriculture	16140
				Gaothan	Private	Non Agriculture	4668

1	2	3	4	5	6	7	8
				37 Pt	Private	Agriculture	2280
				77 Pt	Private	Agriculture	14280
				75 Pt	Private	Agriculture	1140
				76 Pt	Private	Agriculture	30
				41 Pt	Private	Agriculture	1872
				42 Pt	Private	Agriculture	1680
				43 Pt	Private	Agriculture	2100
				44 Pt	Private	Agriculture	2100
				45 Pt	Private	Agriculture	2604
				46 Pt	Private	Agriculture	3948
				47A Pt	Private	Agriculture	2740
				47B Pt	Private	Agriculture	2330
				48 Pt	Private	Non Agriculture	4390
				49 Pt	Private	Agriculture	7956
				50B Pt	Private	Agriculture	13524
				Total			114072
			(5) Nandani	1 Pt	Private	Agriculture	4400
				2 Pt	Govt	Non Agriculture	650
				3 Pt	Govt	Forest Land	26650
				4 Pt	Private	Agriculture	2060
				5 Pt	Private	Agriculture	9156
				6 Pt	Private	Agriculture	3588
				7 Pt	Private	Agriculture	2760
				8 Pt	Private	Agriculture	21252
				9 Pt	Private	Agriculture	6396
				10 Pt	Private	Agriculture	3740
				177 Pt	Private	Agriculture	9024
				178 Pt	Private	Agriculture	30
				179 Pt	Private	Agriculture	30
				176 Pt	Private	Agriculture	3768
				175 Pt	Private	Agriculture	3144
				173 Pt	Private	Agriculture	2676
				174 Pt	Private	Agriculture	1310
				172 Pt	Private	Agriculture	2076
				166 Pt	Private	Agriculture	480
				132 Pt	Private	Agriculture	30
				133 Pt	Govt	Non Agriculture	4128
				129 Pt	Private	Agriculture	42180
				124 Pt	Govt	Non Agriculture	930
				122 Pt	Private	Agriculture	1800
				123 Pt	Private	Agriculture	620
				Total			152878
			(6) Takli	162 Pt	Private	Agriculture	6888
				164 Pt	Private	Agriculture	9624
				165 Pt	Private	Agriculture	3320
				179 Pt	Private	Agriculture	1580
				181 Pt	Private	Agriculture	2150
				182 Pt	Private	Agriculture	1310

1	2	3	4	5	6	7	8
				183 Pt	Private	Agriculture	2180
				101 Pt	Private	Agriculture	2730
				100 Pt	Private	Agriculture	7800
				98 Pt	Private	Agriculture	30
				99 Pt	Private	Agriculture	7884
				59 Pt	Private	Agriculture	2529
				58A Pt	Private	Agriculture	5232
				58B Pt	Private	Agriculture	2610
				57 Pt	Private	Agriculture	10872
				54 Pt	Private	Agriculture	9036
				55 Pt	Private	Agriculture	30
				53 Pt	Private	Agriculture	900
				218 Pt	Private	Agriculture	340
				11 Pt	Private	Agriculture	1460
				15 Pt	Private	Agriculture	10188
				16 Pt	Private	Agriculture	2190
				18 Pt	Private	Agriculture	3730
				19 Pt	Private	Agriculture	2328
				14 Pt	Private	Agriculture	16248
				ROAD	Govt	Non Agriculture	790
				52 Pt	Private	Agriculture	6372
				60B Pt	Private	Agriculture	4764
				102 Pt	Private	Agriculture	4692
				104/3 Pt	Private	Agriculture	4632
				105 Pt	Private	Agriculture	2232
				119 Pt	Private	Agriculture	2040
				120 Pt	Private	Agriculture	4068
				BHIMA RIVER	Govt	Non Agriculture	11810
				Total			154589

[F No NHAI/1/11013/LA/01-S/Notif/Mah]

MAYA PRAKASH, Dy Secy